

## बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना

**Bihar Board of Open Schooling and Examination, Patna**

## परीक्षा आवेदन—पत्र (ग्रुप A के लिए मान्य)

## हुनर-IV कार्यक्रम

## केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

**फार्म नं०**

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की हुनर-IV के ग्रुप-А में (छ: माह) में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षणार्थी अपना आवेदन-पत्र प्रशिक्षण केन्द्र पर जमा करें। कृपया सभी जानकारी सही भरें।

Please fill Correct Details.

\*जिस ट्वेंड मे प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं उस मे चिन्ह (✓) लगावे:-

1	मधुमक्खी पालन	HA02
2	मुर्गी पालन	HA03
3	वर्मी कम्पोस्टिंग	HA05
4	फल और सब्जी का रखरखाव	HA06

5	सौन्दर्य संवर्द्धन	HH01
6	टाई एण्ड टाई	HH04
7	बाटिक	HH06
8	कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम	HC02

### १. नामांकन संख्या / Enrollment No.

2. परीक्षार्थी का पूरा नाम (देवनागिरी लिपि में)

3. पूरा नाम (रोमन लिपि में) Name in Block Letters in English

**4. जन्म तिथि / Date of Birth**

D D M M Y Y Y Y

--	--	--	--	--	--	--	--

5. पिता का नाम / Father's Name (देवनागरी लिपि में)

6. माता का नाम / Mother's Name (देवनागिरी लिपि में)

## 7. पता / Address

शहर/ ग्राम	जिला	पिन कोड
------------	------	---------

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

समन्वयक द्वारा अभिप्राणित बॉक्स के आकार का फोटो यहाँ चिपकाए

LATEST PASSPORT SIZE  
PHOTOGRAPH OF THE CANDIDATE  
ATTESTED BY THEIR  
CO-ORDINATOR TO BE PASTED  
HERE



8. सम्पर्क मोबाईल संख्या :-

--	--	--	--	--	--	--	--

9. प्रशिक्षण प्रदायी संस्था का नाम : .....

10. प्रशिक्षण केन्द्र का नाम एवं पता : .....

.....

11. प्रशिक्षण केन्द्र का कोड : .....

तिथि :- .....

स्थान:- .....

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि .....ने हुनर-IV

के ग्रुप-A (छ: माह) कार्यक्रम के अन्तर्गत.....ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और वह परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी जानकारी सही है।

केन्द्र समन्वयक का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

प्रशिक्षण प्रदायी संस्थान के सचिव का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

तिथि :- .....

स्थान:- .....

फार्म नं०:-



कार्यालय प्रयोग हेतु (ग्रुप A के लिए मान्य)

प्राप्ति रसीद ( प्रशिक्षणार्थी को दी जाए )

ट्रेड / Trade

कोड नं० / Code No

RECEIPT ( TO BE ISSUED TO THE TRAINEES )

--	--

--	--

हुनर-IV कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र का नाम.....सुश्री.....  
नामांकन संख्या.....से परीक्षा आवेदन-पत्र प्राप्त किया।

दिनांक / : .....

स्थान / : .....

कार्यालय  
बिंमुविंशिंप०बो०